



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 2009/पौष 13, 1930

No. 3]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2009/PAUSA 13, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2009

सं. 124 (आरई-2008)/2004-2009

फा. सं० 01/94/180/0312/ए एम 09/पी सी-4(ख).—

विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 1.1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, “डी ई पी बी दरों की अनुसूची” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. जिन उत्पादों पर डी ई पी बी दरों को घटाया गया था, उनके संबंध में सार्वजनिक सूचना सं. 102 दिनांक 5-11-2008 द्वारा डी ई पी बी दरों में किए गए संशोधनों को, 5-11-2008 से वापस लिया जाता है, जिससे 5-11-2008 से पूर्व अधिसूचित डी ई पी बी दरों को बहाल किया जाता है।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 3rd January, 2009

No. 124 (RE-2008)/2004-2009

F.No. 01/94/180/312/AM 09/PC 4(B).—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009 and Paragraph 1.1 of the Handbook of Procedures (Vol. 1), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments on the ‘Schedule of DEPB Rates’.

1. Amendments made in DEPB Rates *vide* Public Notice No. 102, dated 5-11-2008 in respect of products where DEPB rates were reduced, hereby stand withdrawn w.e.f. 5-11-2008 itself, thereby restoring the DEPB Rates notified prior to 5-11-2008 for the said items.

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.